


हिन्दी पखवाड़ा- 2020 के दौरान आयोजित हिन्दी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त लेख

डॉ. इमेल्टा जोसफ, प्रभारी अध्यक्ष, समुद्री संवर्धन प्रभाग



एक गाँव में बड़े पेड़ पर कुछ कबूतर रहते थे। गाँववाले हर दिन उनको खाने के लिए पेड़ के नीचे दाना फेंक देते थे। एक दिन कबूतरों के नेता ने यह सोचा कि दाना खाने के लिए दूसरे स्थान पर जाएं या नहीं? उसने बाकि

कबूतरों को अपना सुझाव दिया। यह बात सुनकर सभी कबूतरों ने अपना गाँव छोड़कर दूसरे स्थान जाने के लिए तैयार हुए। सभी एक साथ चलते थे। थोड़ी दूर चलने के बाद सब कबूतर थक गए और वे भूखे भी थे। उस समय

एक कबूतर ने कुछ दूर अनाज सुखाने का एक मैदान देखा। नेता ने सभी कबूतरों को इशारा किया। अनाज खाने के लिए सभी कबूतर इकट्ठे हुए। जब कबूतरों ने अनाज खाना शुरू किया तब वहां बैठे पहरेदार को देखा। उसके हाथ में बन्दूक था। लेकिन वह दोपहर के भोजन के बाद सो रहा था। सभी कबूतर चुपचाप अनाज खाने के लिए आए। लेकिन अनाज खाने के लिए आने पर पता चला कि अनाज के ऊपर जाल बिछाया गया था। कबूतरों ने जाल के ऊपर सावधानी से बैठकर खाना खाना शुरू किया। इस समय चौकीदार नींद से उठ गया। कबूतरों को देखकर नाराज़ हो गए और उन्हें भगाने के लिए दौड़कर आया। लेकिन वह अपना बन्दूक भूल गया था। कबूतरों के नेता ने अपने साथियों से कहा कि जब चौकीदार आयेंगे तब एक साथ उठकर जाल उनके सिर पर डाल देंगे। कबूतरों ने ठीक वैसा ही किया। कबूतरों को भगाने के लिए आए चौकीदार खुद जाल में फँस गया। इस बीच कबूतरों ने पर्याप्त अनाज खाकर अपने भूख को मिटाया और वे दूसरे गाँव की ओर उड़ गए।

इस कहानी से हमें कुछ सन्देश मिलते हैं -

- 1. जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो इस पर सोचना और प्रयास करना अनिवार्य है।
- 2. ग्रुप में किसी भी काम करने पर किसी एक को नेता बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि मुश्किल अवस्था में आवश्यक निर्णय और सुझाव लेना पड़ता है, इसके लिए अच्छे नेता का नेतृत्व आवश्यक है।
- 3. एकता में बल है- यह है सबसे बड़ा अमूल्य पाठ। जीवन की कठिनाईयों को दूर करने के लिए मनुष्य को एक साथ काम करना अनिवार्य है। कोविड-19 महामारी के इस सन्दर्भ में भी सरकार के निर्देशों का पालन हम कर रहे हैं। कबूतरों के नेता की तरह सरकार उचित समय पर सही निर्णय ले रही है। एस एम एस (एस – सानिटैस करके, एम – मास्क पहनकर, एस – सामाजिक दूरी) के द्वारा इस महामारी को दुनिया से भगाने के लिए हम लड़ रहे हैं।



कार्यभार ग्रहण

श्री हरीश नायर ने भा कृ अनु प-केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन में दिनांक 25 नवंबर, 2020 (अपराह्न) को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वे भा कृ अनु प-सी पी सी आर आइ, कासरगोड के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यभार भी संभाल कर रहे हैं।